

मनुष्य का सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है तो वह है उसका अज्ञान - चाणक्य

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र  
छत्तीसगढ़ राज्य केंद्र  
ए डी - 2 दूसरी मंजिल, कमरा नं. 14,15,16  
महानदी भवन, मन्त्रालय,  
नवा रायपुर अटलनगर  
छत्तीसगढ़ - 492002  
<https://chhattisgarh.nic.in>

समासामयिकी

छ. ग. मासिक ई-शासन सूचनापत्र "The InfoNIC", मार्च '2022 अंक का विमोचन



मार्च '22 के महीने के लिए एनआईसी, सीजी, "द इन्फोनिक्" का मासिक ई-गवर्नेंस न्यूज़लेटर दिनांक 8 मार्च 2022 को जारी किया गया, जिसमें राज्य के साथ-साथ केंद्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया जा रहा है। इस महीने का मुख्य आकर्षण 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। इस शानदार और रंगारंग कार्यक्रम का शुभारंभ डीडीजी और एस.आई.ओ. डॉ. अशोक कुमार होता जी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए सुश्री पुष्पा साहू (संयुक्त सचिव खनन विभाग) ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और श्रीमती पूनम सोनी (ओ.एस.डी मुख्य सचिव) ने अतिथि के रूप में भाग लिया। अतिथि गण ने कार्यक्रम में इन्फोनिक् मासिक पत्रिका को अति सराहा।



विदाई समारोह



श्री उमेश कुमार,  
वैज्ञानिक—बी



श्री सुमित कुमार,  
वैज्ञानिक—बी

**8 मार्च 2022 को एनआईसी, छत्तीसगढ़ राज्य केंद्र में महिला दिवस समारोह**

8 मार्च 2022 को एनआईसी, छत्तीसगढ़ राज्य केंद्र में महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। जिसके अंतर्गत एनआईसी कार्यालय और कार्यक्रम स्थल को सजाया गया था और दिन के लिए ट्रेस कोड की घोषणा की गई थी। समारोह के लिए संविदात्मक स्टाफ सहित सभी महिला कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया था और सभी ने उत्साह के साथ भाग लिया। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में खनन विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती पुष्पा साहू की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ हुई और मुख्य सचिव की ओएसडी श्रीमती पूनम सोनी सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इस शानदार और रंगारंग कार्यक्रम का शुभारंभ डीडीजी और एस.आई.ओ. डॉ. अशोक कुमार होता जी की अध्यक्षता में किया गया।



इस कार्यक्रम में एनआईसी महिला अधिकारियों की छिपी हुई प्रतिभाओं को एक-एक करके प्रदर्शित किया गया, जो संगीत, कला, चित्रकला और वाद्य संगीत से लेकर नृत्य तक भिन्न थे। हमारे कुछ पुरुष अधिकारियों ने अपने जीवन में अद्भुत महिलाओं के बारे में भाषण के माध्यम से अपने विचार साझा किए। कई मजेदार खेलों का आयोजन किया गया था और सभी ने उनमें भाग लेने का आनंद लिया।

सभी महिला अधिकारियों ने समर्पण के साथ मिलकर काम किया और इस दिन को एक भव्य और यादगार बनाया। यह उन सभी के लिए बहुत आवश्यक ब्रेक लाया, जिसने बदले में सकारात्मक भावनाओं का निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त किया। दिन अच्छी तरह से दैनिक निर्धारित काम से एक तनाव मुक्त एवं हर्ष उत्साह के साथ समाप्त हो गया।

एन.आई.सी. की महिला समिति की टीम को समिति के सभी सदस्यों द्वारा "धारा" नामकरण किया गया। एनआईसी-छत्तीसगढ़ की महिला अधिकारियों की प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन करने के लिए विशेष रूप से एक समाचार को बनाया गया। जिसके द्वारा

**युवा विधिक जागरूकता सेमीनार - छात्रों का कोरबा एन. आई. सी. भ्रमण**

शास. ई. वी. पी. जी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विद्यार्थियों का एक सप्ताह का युवा विधिक



जागरूकता सेमीनार का आयोजन दिनांक 22/02/2022 से दिनांक 03/03/2022 तक किया गया था जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को जिले के विभिन्न विभागों के भ्रमण कराया गया। डॉ. संजय यादव, सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र के मार्गदर्शन में दिनांक 02/03/2022 को एन आई सी कार्यालय का भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को हेमंत कुमार जायसवाल डी आई ओ कोरबा के द्वारा एन आई सी के संरचना एवं कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। ई - प्रशासन से संबंधित विभिन्न अनुप्रयोगों एवं एन

आई सी नेट व वीडियो कनफेरेंसिंग की जानकारी भी दी गई।





समसामयिकी

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, छत्तीसगढ़ में “तनाव प्रबंधन” पर कार्यशाला



राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, छत्तीसगढ़ राज्य केंद्र, नया रायपुर में दिनांक 14-03-2022 से 15-03-2022 तक मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत

दो दिवसीय “तनाव प्रबंधन” पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ श्री टी. एन. सिंह, ASIO द्वारा प्रशिक्षकों का स्वागत एवं उद्बोधन से किया गया। कार्यशाला के सुचारू संचालन के

लिए प्रशिक्षक के रूप में श्री प्रशांत पाण्डेय, साइकेट्रिक, एनएमएचपी, बिलासपुर, श्री पी अतित राव, कम्यूनिटी नर्स, एनएमएचपी, रायगढ़, डॉ सुमी जैन, राज्य कार्यक्रम समन्वयक, एनसीडी, श्री राहुल नवरत्न, सीनियर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट, एनएमएचपी, श्री यशवंत वर्मा, डॉटा एंटी आपरेटर, श्री हरीश साहू, डॉटा एंटी आपरेटर, एनएमएचपी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

कार्यशाला में विभिन्न गतिविधियां संपन्न कराई गई जो की तनावमुक्त कार्य करने में सहायक होती हैं जैसे की समूह कार्य में जटिल कार्य को तनावमुक्त रहकर सरलता पूर्वक किया जा सकता है।

एकता की भावना, अधीनस्थ एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्य करने की कला, पारिवारिक समस्याओं से तनावमुक्त होना।

कार्यक्रम के समापन में श्री ए. के. सोमशेखर, ASIO द्वारा प्रशिक्षकों का धन्यवाद ज्ञापन किया गया एवं इसे बहुत ही उपयोगी एवं तनावमुक्त कार्य करने में सहायक बताया।

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, छत्तीसगढ़ राज्य केंद्र मिलन - 2022



राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, छत्तीसगढ़ राज्य केंद्र, नया रायपुर, मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का वार्षिक पारिवारिक मिलन समारोह 2022 दिनांक 27-02-2022 को विहान कैफेटेरिया, वीआईपी रोड, रायपुर में आयोजित किया गया था।

उक्त समारोह में सम्मिलित हुए अधिकारियों/कर्मचारियों के परिवार के लिए कुर्सी दौड़, युगल नृत्य, गीत-संगीत जैसे मनोरंजक प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम सभी परिवारों के लिए शाम 06:30 से चाय के साथ नाश्ते की व्यवस्था की गयी थी तत्पश्चात सभी परिवारों के लिए आयोजित की गयी प्रतिस्पर्धाओं को प्रारम्भ किया गया सबसे पहले म्यूजिकल चेरर रेस प्रतियोगिता बच्चों, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए आयोजित की गयी उसके बाद युगल डांस एवं गीतों द्वारा सभी परिवारों के द्वारा प्रदर्शन किया गया और बच्चों के लिए पृथक से डांस का आयोजन किया गया। समारोह के अंत में

प्रतियोगियों के विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसके पश्चात रात्रि भोज विहान कैफेटेरिया के सदस्यों द्वारा कराया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में डॉ अशोक कुमार होता, SIO महोदय द्वारा समारोह के आयोजन को बहुत ही उत्साहवर्धक एवं भावुकतापूर्ण बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया। अंत में श्री टी. एन. सिंह, ASIO द्वारा समारोह को सफल बनाने हेतु श्री पी. रामाराव, ASIO एवं श्री ऋषि राय, वैज्ञानिक -बी को धन्यवाद देते हुए समारोह के समापन की घोषणा की एवं सभी को पारिवारिक मिलन समारोह में भाग लेने हेतु सभी का शुक्रिया अदा किया।

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, छत्तीसगढ़ द्वारा “कपड़ा वितरण सामाजिक कार्य”

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, छत्तीसगढ़ राज्य केंद्र द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2022 शाम 5:00 बजे महासमुंद्र रोड में उपस्थित, एमएम कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के पास एक छोटे से गांव में जरूरतमंदों को वस्त्र दान किया गया। गांव में पहुंचकर सभी कपड़ों को व्यवस्थित रूप से जमाया ताकि बांटने में असुविधा ना हो। 5:15 तक गांव की सभी महिलाएं, पुरुष, बच्चे उस जगह पर एकत्रित हो गए। महिलाओं को उनकी पसंद व जरूरत अनुसार साड़ी प्रदाय किया गया, पुरुषों को पैंट, शर्ट, कुर्ता इत्यादि प्रदाय किया गया बच्चों के लिए भी कपड़े प्रदाय किए गए। वस्त्र के साथ-साथ वहां उपस्थित नन्हे बच्चों के लिए बिस्कुट एवं चॉकलेट की व्यवस्था भी की गई थी उसका वितरण भी किया गया। सभी वस्त्र पाकर अति प्रसन्न हुए, सभी के

चेहरे पर मुस्कान थी। सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर प्रतीत हुआ कि उनको अपनी जरूरत के वस्त्र मिल गए। NIC की टीम में SIO, छत्तीसगढ़ राज्य, श्री ए. के. होता के साथ वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, तकनीकी निदेशक व अन्य अधिकारियों ने भी अपना सहयोग दिया। सभी के सहयोग व प्रयास से यह कार्यक्रम संपन्न हो पाया।



बच्चियों का पितारा